

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा

पत्रांक:- 1691/Encl रोसड़ा, दिनांक:- 8/10/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क उन्नयन योजना (Gen) अन्तर्गत भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क उन्नयन योजना (Gen) अंतर्गत कराये गये कार्य का भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आवंटन उपलब्ध कराने हेतु समर्पित किया जा रहा है। संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद है।

भवदीय से अनुरोध है कि प्रपत्र के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने के कृपा किया जाय।

अनु०- 1 विहित प्रपत्र।

2 Form 19-A

3 मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।
8.10.24

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of utilization Certificate up to the month of Up to 8.10.2024
Scheme **MMGSUY (Gen)**

PIU - Rosera

Sl no.	Name of Scheme	Section No. & Date with Amount (In Lacks)	Amount Received (In Lacks)	Particulars
1	Construction of Rural roads under Scheme MMGSUY (Gen)	BRRDA Memo No. - 104 Enl. Dated - 8.10.24	1,86,57,958/-	Certified that out of Rs ..41,63,66,87.55 lacks received during the years 2023-24... in favor of EX. Engineer, RWD Bihar, ..41,40,24,81.44 lacks has been utilized for the purpose of MMGSUY (Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of ..2,33,88.55 lacks remaining unutilized at the end of the period under.

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised:-

- Works have been supervised by executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other caudal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:


- Construction of road works.
- Construction of CD works.


D.A.O.

Rural Works Department,
Works Division Rosera



Executive Engineer
Rural Works Department,
Works Division Rosera


8.10.24

Rural Works Department
MMGSUY (Gen) Allotment Requisition Format


Name of Division :-

Rosera

Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km.)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBM/WMM/B M/SDBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MMGSUY/23-24 Rosera/03	3201030280011	Kansauli - Hasanpur	2.74	316.8	248.68264	01/MBD-2024-25 13/08/2024	12/8/2025	-	GSB, WBM2, WBM3	-	-	-	0.0	0.0	80.60047	80.60047	Work in Progress
Total														0.0	0.0	80.60047	80.60047	

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.


Divisional Engineer
Works Division, Rosera


Executive Engineer
RWD (W) Division, Rosera
8.10.24

Note :-

1. Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate Must be uploaded in MIS.
2. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excell) of recorded IRI is enclosed (As Applicable)